

पकड़ी गई नकली सीमेंट की फैक्ट्री, पांच गिरफ्तार

Publish Date:Thu, 27 Aug 2020 06:08 AM (IST)



डैमेज व सस्ते सीमेंट से बनाते थे ब्रांडेड कंपनी की नकली सीमेंट

जागरण संवाददाता, बस्ती: पुरानी बस्ती पुलिस ने बस्ती मेंहदावल रोड पर कोड़रा तिराहे के पास बाग में संचालित नकली सीमेंट की फैक्ट्री पकड़ी है। कारोबार में शामिल पांच लोग मौके से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुरानी बस्ती थाने के प्रभारी निरीक्षक अवधेश राज को मंगलवार की शाम सूचना मिली कि कोड़रा तिराहे के पास एक बाग में नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही है। उन्होंने एसआइ रामवशिष्ठ और सिपाहियों को लेकर बाग में छापेमारी की। इस दौरान मौके पर रामभवन, लालजी, राजू साहनी निवासीगण अहिरौली थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर, प्रकाश यादव और पप्पू निवासी सिंहोरवा थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फैक्ट्री से विभिन्न कंपनियों के तैयार 3399 बोरी सीमेंट, 261 बोरी डैमेज एमपी बिरला परफेक्ट प्लस सीमेंट, इसी सीमेंट की 400 खाली बोरी, अल्ट्राटेक सीमेंट की खाली 526 बोरी, सीमेंट भरने के उपकरण, एक ट्रैक्टर, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद किया गया।

हाथ से निकल गया सरगना

नकली सीमेंट फैक्ट्री का मालिक अरुण जायसवाल निवासी मेंहदावल रोड, पांडेय बाजार थाना पुरानी बस्ती पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस के हाथ आए लोगों में सभी मजदूर हैं। उन्होंने पूछताछ में बताया कि वे फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। फैक्ट्री अरुण जायसवाल की है।

नामी कंपनियों के नाम की तैयार होती थी नकली सीमेंट

पकड़े गए अवैध सीमेंट फैक्ट्री में नामी कंपनियों के नाम की नकली सीमेंट तैयार होती थी। पकड़े गए मजदूरों ने बताया कि फैक्ट्री मालिक उनसे एमपी बिरला परफेक्ट प्लस की डैमेज सीमेंट को ट्रैक्टर के माध्यम से भुर-भुरा बनाकर उसे चलाने के बाद एसीसी गोल्ड, एमपी बिरला परफेक्ट प्लस, एसीसी सुरक्षा अल्ट्राटेक की खाली बोरी में भरवाते हैं। बाद में इसे महंगे दामों पर बेचते हैं।

120 रुपये में तैयार होती थी नकली सीमेंट की एक बोरी

प्रभारी निरीक्षक अवधेश राज ने बताया कि मजदूरों के पूछताछ के आधार पर पता चला कि एक बोरी नकली सीमेंट तैयार करने पर तकरीबन 120 रुपये का खर्च आता था। एक बोरी भरने पर मजदूरों को 17 रुपये मिलते थे। पुलिस के अनुसार डैमेज सीमेंट की एक बोरी करीब सौ रुपये में मिलती थी। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि धंधे के मास्टमाइंड अरुण की गिरफ्तारी के बाद ही नकली सीमेंट के धंधे से जुड़ी अन्य जानकारियां मिल सकेंगी।

अरुण समेत छह पर मुकदमा

बस्ती:नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लालजी, रामभवन, राजू साहनी, प्रकाश यादव, पप्पू के साथ ही फैक्ट्री मालिक अरुण जायसवाल के खिलाफ पुरानी बस्ती थाने में धोखाधड़ी व कापीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

Source :

https://www.jagran.com/uttar-pradesh/basti-police-caught-fake-cement-factory-five-arrested-20673387.html?utm_expid=.EV9lrgB0QnKoaDL62_wZVQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F